



# ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

## पर्यावरण विज्ञान विभाग

डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सालन



## ब्लॉक स्तर की कृषि मौसम दृष्टिकोण

Tel: +91-1792-252706: E-mails: [jangra\\_ms@live.com](mailto:jangra_ms@live.com), [gkmsuhfnaunisolan@gmail.com](mailto:gkmsuhfnaunisolan@gmail.com)

वर्ष: 1 अंक: 4 अवधि: 14-18 जुलाई दिनांक: 13-07-2018

### धर्मपुर, कण्डाघाट कुनीहार व नालागढ़ ब्लॉक

#### आने वाले पांच दिनों के मौसम का पूर्वानुमान

अगले पांच दिनों में सभी स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दिन व रात के तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। हवा दक्षिण-पूर्वी दिशा से 5 से 13 कि.मी. प्रति घण्टा की गति से चलने तथा औसतन सापेक्षित आर्द्रता 34-94 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

### सप्ताहिक कृषि कार्य

वर्षा के पानी का उचित उपयोग करें।

हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के स्रोत बहुत कम हैं। वर्षा भी अधिकतर मौनसून (बरसात) के मौसम में ही होती है, अन्यथा सिंचाई का अभाव बना रहता है। थोड़ी वर्षा सर्दी के मौसम में भी होने की संभावना रहती है। जलाशयों का निर्माण करके वर्षा के जल का संचयन किया जा सकता है।

सब्जी फसलों सम्बंधित कार्य :

टमाटर में आजकल सफेद मक्खी फल छेदक तथा माईट का आक्रमण हो सकता है।

सफेद मक्खी की रोकथाम के लिये पीले स्टीकी ट्रैप (1ट्रैप/100 मी<sup>2</sup>) का प्रयोग करें। पौधों पर इमिडाक्लोरिपिड (कोन्फीडोर 7.5 मिलीलीटर ) या मैलाथियॉन (22.5 मिलीलीटर) या ऑक्सीडेमेटान मिथाईल (मैटासिस्टॉक्स 15 मिलीलीटर) का 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

माईट की रोकथाम के लिये फेन्जाक्वीन (मैजिस्टर 3.75 मिलीलीटर/15 लीटर पानी) का छिड़काव करें। फल छेदक की रोकथाम के लिये इन्डोक्साकार्ब 14.5 ई सी (11 मिलीलीटर) या लैम्डा साइलोथ्रिन 5 ई सी (क्राटे 18.75 मिलीलीटर) का घोल 15 लीटर पानी में बनाकर छिड़काव करें।

बागवानी सम्बंधित कार्य :

सेब में माईट की रोकथाम के लिये फेन्जाक्वीन मैजिस्टर/मैजेस्टीक 10 ई सी 50 मिलीलीटर/200 लीटर पानी या प्रोपरजाईट सिम्बा/ओमाईट 57 ई सी 200 मिलीलीटर/200 लीटर पानी या हैक्सीथायाजोक्स मेडन 5.45 ई सी 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करें। अनार में फल धब्बा रोग की रोकथाम हेतु मैन्कोजेब 600 ग्राम या कार्बेन्डाजिम 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करें

नोट: किसी भी दवाई का छिड़काव मौसम का रुख देखकर करें व स्टीकर अवश्य मिलायें।

डॉ मोहन सिंह जाँगडा  
नोडल ऑफिसर

डॉ सतीश भारद्वाज  
विभागाध्यक्ष